

अपने डेबिट/क्रेडिट कार्ड सुरक्षित रखें

जैसे-जैसे हम एक कैशलेस सोसाइटी (नकदहीन समाज) की ओर प्रगति कर रहे हैं, वैसे-वैसे नकद के बजाए डेबिट और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करना आम बात होती जा रही है।

आपके कार्डों में अत्यधिक व्यक्तिगत जानकारी शामिल होती है - यदि इसे सुरक्षित नहीं रखा जाता है तो इसकी नकल या चोरी की जा सकती है। इससे अपराधी आपके पैसे या आपकी पहचान तक पहुँच प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं।

यहाँ कुछ सामान्य प्रकार्य दिए गए हैं जिनका प्रयोग हम सभी इस प्रकार के अपराध से अपने कार्ड की सूचना को सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं।

अपना कार्ड सुरक्षित रखें

- अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड अपनी नज़रों से दूर न करें।
- यह **आग्रह** करें कि लेन-देन आपकी आँखों के सामने होता है।

अपना पिन सुरक्षित करें

- अपना पिन किसी से साझा न करें।
- अपने हाथ की **आड़** लेते हुए अपना पिन एंटर करें।
- अपना पिन नियमित रूप से **बदलें**।

अपना एकाउंट सुरक्षित करें।

- रिप्लेसमेंट कार्ड और पिन सम्बन्धित जानकारी के लिए रजिस्टर्ड डाक या ब्रांच से पिक अप करने का **निवेदन** करें।
- बैंक से सम्बन्धित जानकारी, बिल और एक्स्पायर्ड/अनावश्यक कार्डों को **सुरक्षित रूप से** डिस्पोज (निपटान) करें, अच्छा होगा यदि आप सभी दस्तावेजों को श्रेडिंग मशीन का प्रयोग करके ऐसा करें।
- **हमेशा** अपने वित्तीय स्टेटमेंट्स को अपनी खरीदी हुई वस्तुओं से जाँचें। यदि आप कुछ ऐसा पाएँ जो ठीक नहीं लगता है, तो तुरंत ही अपने वित्तीय संस्थान से संपर्क करें।

ऑनलाइन अपने कार्ड को सुरक्षित रखें।

- ऑनलाइन खरीददारी करते समय उन इलेक्ट्रॉनिक पेयमेंट एनेबलर्स का **प्रयोग** करें जिनके प्रयोग की सलाह दी जाती है।
- अपने उपकरणों में एंटी-वायरस/एंटी-मैलवेयर सॉफ्टवेयर **इंस्टॉल** करें और उसे बनाए रखें।

यदि आपको लगता है कि आप साइबर से सम्बन्धित किसी अपराध के शिकार हुए/हुई हैं, तो इसकी सूचना तुरंत ही **www.acorn.gov.au** पर दें

अपराध रोकथाम सूचना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें **www.police.nsw.gov.au**

अपने आप को थोखाथड़ी से बचाएँ



Justice



Triple Zero (000)
For emergencies or life threatening situations.



Police Assistance Line (131 444)
For non emergencies.



Crime Stoppers (1800 333 000)
To provide crime information. It can be anonymous.